VEDANTA LIMITED

CIN: L13209MH1965PLC291394

Regd. Office: 1" Floor, 'C' Wing, Unit 103, Corporate Avenue, Atul Projects, Chakala, Andheri (East), Mumbai - 400093

Phone No.: +91-22 6643 4500; Fax: +91-22 6643 4530; Website: www.vedantalimited.com; Email ID: comp.sect@vedanta.co.in

NOTICE OF BOARD MEETING

Notice is hereby given that the meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on May 12, 2023

inter alia to consider and approve the Audited Financial Results for the Fourth Quarter and Year ended March 31, 2023.

The intimation submitted to the Stock Exchange(s) with reference to the aforesaid is available on their website at

'IMPORTANT'

vvriist care is taken prior to acceptance or advertising

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be held responsible for such

contents, nor for any loss or damage incurred as a

result of transactions with companies, associations or

individuals advertising in its newspapers or Publications.

We therefore recommend that readers make

necessary inquiries before sending any monies or

entering into any agreements with advertisers or

otherwise acting on an advertisement in any manner

www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the Company's website at www.vedantalimited.com.

vedanta

Place: New Delhi

Date: May 06, 2023

whatsoever.

thereto ("the Rules").

For Vedanta Limited

Company Secretary & Compliance Officer

Prerna Halwasiya

PARTICULARS (₹ in Lakhs)	Quarter Ended Mar 31, 2023		Quarter Ended Mar 31, 2022		
	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
1. Total income from Operations (net)	2,661	2,866	2,317	11,794	7,718
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	535	761	302	3,085	993
3. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	535	761	302	3,085	993
4. Total Comprehensive Income (after tax)	589	760	303	3,116	992
5. Equity Share Capital (face value ₹10/-)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
6. Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)				34,469	31,353
7. Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of ₹10/- each					

under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the stock exchange website: www.nseindia.com and

www.selanoil.com

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LIMITED Suniti Kumar Bhat Chairman DIN: 08237399

> SI.No. Description of Resolution Type of Resolution Increase in Authorized Share Capital and Consequent Ordinary Resolution Amendment to the Memorandum of Association of the Company Issuance of Equity Shares of the Company on Special Resolution Preferential Basis To Increase in threshold of loans/ guarantees, providing | Special Resolution of securities and making of investments in securities

under Section 186 of the Companies Act, 2013

S.J.S. ENTERPRISES LIMITED

(Formerly S.J.S. Enterprises Private Limited)

Registered and Corporate Office: Sy No 28/P16 of Agra Village and Sy No 85/P6 of

B.M Kaval Village, Kengeri Hobli, Bangalore 560 082, Kamataka, India

Website: www.sjsindia.com | E-mail: compliance@sjsindia.com

Tel: +91 80 6194 0777 | CIN: L51909KA2005PLC036601

NOTICE OF THE FIRST EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF FY 2023-24 AND E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 1st Extraordinary General Meeting for the Financial Year

2023-24 ("EGM") of the members of S.J.S. Enterprises Limited ("Company") will be held on

Tuesday, 30th May, 2023 at 04:30 p.m. (IST) through Video Conferencing/Other Audio Visual Means ('VC/OAVM'), in compliance with applicable provisions of the

Companies Act. 2013 ('Act') and rules made thereunder, Securities and Exchange Board

of India ('SEBI') (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020 read with General Circular No. 17/2020

dated April 13, 2020, General Circular No. 22/2020 dated June 15, 2020 and General

Circular No. 33/2020 dated September 28, 2020, General Circular No. 39/2020 dated

December 31, 2020, General Circular No. 10/2021 dated June 23, 2021 and General Circular No. 20/2021 dated 8th December 2021 read with other relevant circulars, including and General Circular No. 3/2022 dated May 5, 2022, General Circular No.

11/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA

Circulars") and the Securities and Exchange Board of India Circular Nos.

SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 and

SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, SEBI/HO/CFD/PoD-

2/P/CIR/2023/4 dated January 05, 2023 ("SEBI Circulars") and other applicable laws and

regulations, if any for the time being in force, without the physical presence of

shareholders at a common venue. Also, the attendance of the shareholders present

through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section

103 of the Companies Act, 2013 (the "Act"). Therefore, request you to make it convenient

to attend the meeting virtually for according your valuable approval with respect to the

proposed resolutions appended below during the EGM, through voting by electronic

In compliance with the Circulars, EGM Notice has been sent only through electronic mode to those members whose email addresses are registered with the Company/ Registrar and Transfer Agent ('RTA') of the Company i.e., Link Intime India Private Limited ('LIIPL')/ Depository Participants ('DPs'), unless any member has requested for a physical copy of the same. The aforesaid documents are also available on the Company's website at www.sisindia.com, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and on the website of the RTA at https://instavote.linkintime.co.in. The dispatch of Notice of the EGM has been completed on Friday, 05th May, 2023.

Members whose email IDs are already registered with the Company/RTA/DP, may follow the instructions for remote e-Voting prior to EGM and e-Voting during the EGM, as the case may be, as provided in the EGM Notice. Members who have not registered their email IDs, are requested to register the same with the Company's RTA / their respective DPs for sending future communication(s) in electronic form for receiving all communications including Notices etc. from the Company electronically. The email addresses can be registered with the DP in case the shares are held in electronic form and with the RTA of the Company in case the shares are held in physical form. Upon successful registration of email ID, the login ID and password for e-Voting shall be shared on the member's registered email ID.

Pursuant to the provisions of Section 108 of the Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ('Listing Regulations'), members will be provided with the facility to cast their vote electronically, through the remote e-Voting facility (prior to the EGM) and e-Voting facility (during the EGM), on all the resolutions set forth in EGM Notice. The facility of casting votes will be provided by LIPL. Facility for e-Voting during the EGM will be made available to those members who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolutions through remote e-Voting. The Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend/ participate in the EGM through VC/OAVM but shall not be eligible to vote at the EGM. All the Members are

- The business as set forth in the EGM Notice will be transacted through voting by electronic means in the form of remote e-Voting prior to EGM or during the EGM.
- The voting rights of member(s) shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Company as on the cut-off date i.e. Tuesday, 23rd May, 2023. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date shall only be entitled to vote through remote e-Voting prior to EGM/e-Voting during the EGM.
- Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after sending the notice of the EGM and holding shares as on cut-off date, may obtain the User ID and password by sending an email to the RTA at enotices@linkintime.co.in for issuance of User ID and Password for exercising their votes by electronic means by mentioning their Folio No./DP ID and Client ID. However, if a member is already registered with the RTA for e-Voting, then the existing User ID and password can be used for casting their vote.
- The remote e-Voting period begins on Saturday, 27th May, 2023 at 9:00 a.m. (IST) and ends on Monday, 29th May, 2023 at 5:00 p.m. (IST). The remote e-Voting module shall be disabled by LIIPL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. During this period, members holding shares either in physical form or in dematerialized form may cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM.
- The members will be provided with the facility for e-Voting during the EGM and those members participating at the EGM and who have not already cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM, will be eligible to vote during the EGM.
- The members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the EGM may also attend/participate in the EGM through VC/ OAVM, but shall not be eligible to vote
- again during the EGM. Detailed process and manner of remote e-Voting prior to EGM, e-Voting during the EGM and instructions for attending the EGM through VC/OAVM is being provided in
- the EGM Notice which is also available on the Company's website at www.sjsindia.com. 8. The Board of Directors of the Company has appointed Mr. Ananta R Deshpande
- (Membership No. FCS 11869), Practicing Company Secretary, as Scrutinizer to scrutinize the process for remote e-Voting prior to the EGM and e-Voting during the EGM in a fair and transparent manner. The voting results shall be declared within two working days of the conclusion of the
- EGM and the same, along with the Consolidated Scrutinizer's Report, shall be placed on the website of the Company at www.sjsindia.com and shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.
- Contact details for addressing e-voting related queries/grievances, if any: Members may refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and Insta Vote manual available at https://instavote.linkintime.co.in under help section or an e-mail to enotices@linkintime.co.in or Contact on: - Tel 022-4918 6000, Insta Vote Support helpdesk

For S.J.S. Enterprises Limited Thabraz Hushain W Company Secretary & Compliance Officer

Date: 05th May, 2023

Place: Bangalore

GO FASHION (INDIA) LIMITED

(formerly known as GO FASHION (INDIA) PRIVATE LIMITED) CIN: L17291TN2010PLC077303

Registered Office: Sathak Center, 5th Floor, New No. 4, Old No. 144/2, Nungambakkam High Road, Chennai, Tamil Nadu 600 034

Extract of Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2023

(INR In Lakhs, except Earnings Per Share data, unless otherwise stated)

Q I	SI. Bartianton		Quarter Ended	- 15	Year ended		
No.	Particulars Particulars	31-03-2023 (Unaudited)	31-12-2022 (Unaudited)	31-03-2022 (Unaudited)	31-03-2023 (Audited)	31-03-2022 (Audited)	
1	Total Income from Operations	15,758.80	17,674.19	11,624.37	66,527.95	40,131.25	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	1,926.86	3,271.58	1,517.60	10,868.61	4,787.64	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	1,926.86	3,271.58	1,517.60	10,868.61	4,787.64	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	1,477.59	2,431.38	1,230.08	8,279.82	3,560.08	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	1,372.29	2,435.78	1,269.68	8,187.73	3,577.70	
6	Paid-up Equity Share Capital (face value of Rs.10 each)	5,400.90	5,400.90	5,400.90	5,400.90	5,400.90	
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve)		-		46,644.02	38,439.85	
8	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations):						
	1. Basic	2.74	4.50	2.28	15.33	6.74	
	2. Diluted	2.74	4.50	2.28	15.33	6.74	

Place : Chennai

Date: May 05, 2023

New Delhi

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Year to Date ended audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Year to Date ended audited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on Company's website (www.gocolors.com). The financial results have been duly approved by the Board of Directors at their meeting held on May 05, 2023.

> For Go Fashion (India) Limited (formerly known as GO FASHION (INDIA) PRIVATE LIMITED) Prakash Kumar Saraogi Managing Director - DIN No: 00496255

Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110 043

PARTICULARS (₹ in Lakhs)	Quarter Ended Mar 31, 2023 (Audited)	Quarter Ended Dec 31, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended Mar 31, 2022 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2023 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2022 (Audited)
1. Total Income from Operations (net)	2,661	2,866	2,317	11,794	7,718
2. Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	535	761	302	3,085	993
3. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	535	761	302	3,085	993
4. Total Comprehensive Income (after tax)	589	760	303	3,116	992
5. Equity Share Capital (face value ₹10/-)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
6. Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)				34,469	31,353
7. Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of ₹10/- each Basic :	3.51	5.01	1.99	20.29	6.53
Diluted :	3.51	5.01	1.99	20.29	6.53

www.bseindia.com and on the Company's website: www.selanoil.com

Date: 5 May, 2023

Place: New Delhi

The South Indian Bank Ltd. Regd. Office: SIB House, T.B. Road Mission Quarters, Thrissur-680001. Tel: 0487 2420020 Website:www.southindianbank.com Email id:ho2006@sib.co.in TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED TO THE

INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) Notice is hereby published pursuant to the applicable provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 07, 2016 and subsequent amendments

The rules amongst other matters contain provisions for transfer of unpaid or unclaimed dividend to IEPF and transfer of shares in respect of which dividend remains unpaid or unclaimed for 7 consecutive years or more to the IEPF account.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividend are not claimed/paid for consecutive 7 years for the year 2015-16 have to be transferred to the IEPF Authority.

As required under the Rules, the Bank has informed the concerned shareholders through a specific communication at their address registered providing the details of unclaimed dividends for the 7 consecutive years and the equity shares that are so liable to be transferred to IEPF. Further, the statement containing the details of name, address, folio number/Demat account number and number of shares due for transfer is made available in our website www.southindianbank.com under Investors Desk-> Shareholders nformation->List of Shareholders w.r.t. transfer of unclaimed shares to IEPF. Shareholders are requested to verify the details of the shares liable to be transferred to the IEPF Account. The shareholders who have not claimed the dividends for the last seven

years in respect of the Equity Shares held by them are advised to make claim for the dividends for the year 2015-16 onwards by writing to our Registrar and Share Transfer Agents M/s BTS Consultancy Services Pvt. Ltd., M S Complex, 1st Floor, No.8, Sastri Nagar, Near 200 Feet Road/RTO Kolathur, Kolathur, Chennai – 600 099. Tel.: 044-47725830. Fax: 044-25565131 E-mail: helpdesk@btsindia.com btschennai@rediffmail.com or to Registered Office of the Bank- The South Indian Bank Ltd., Secretarial Department, "SIB House", T.B.Road, Mission Quarters, Thrissur - 680 001, Kerala. Phone: 0487-2429333, 2420020 (extn: 572), Fax: 0487-2424760 Email: ho2006@sib.co.in on or before 5th of August, 2023. In the event the Company does not receive valid claim from the concerned shareholder(s) on or before 5th of August, 2023, the Company will proceed to transfer the shares to the Demat account of the IEPF Authority.

Further the underlying shares of the shareholders who have not claimed dividends for a consecutive period of seven years from 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14 and 2014-15 has already been transferred to the Demat account of the IEPF Authority. Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority by making an application in the prescribed Form IEPF-5 online and sending the physical copy of the same duly signed (as per the specimen signature recorded with the Company) along with the requisite documents in original enumerated in Form IEPF-5 to the Nodal Officer of the Company.

The concerned shareholders, holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF may note that the Company would be issuing new share certificate(s) letter of confirmation in lieu of the original share certificate(s). Upon issue, the company shall inform depository by way of corporate action to convert share certificate into demat form and transfer in favour of IEPF, the original share certificate(s) which stand registered in their name will be deemed cancelled and nonnegotiable. In case shares are held in Demat form and are liable to be transferred to IEPF, the Company shall inform the depository by way of corporate action for transfer to the Demat account of the IEPF Authority.

The shareholders may further note that, the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares to IEPF pursuant to the Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and equity shares transferred to the IEPF.

For The South Indian Bank Ltd.

Place: Thrissur (JIMMY MATHEW)

Date: May 5, 2023 COMPANY SECRETARY

CIN: L74899UR2001PLC033407

WINDLAS BIOTECH LIMITED

Place: Mumbai

Date: May 05, 2023

(formerly known as Windlas Biotech Private Limited) Registered Office: 40/1, Mohabewala Industrial Area, SBI Road, Dehradun-248110 (Uttarakhand), India Telephone No: 0135-6608000 | Email ID: cs@windlasbiotech.com | Website: www.windlasbiotech.com

Sr. No.	Particulars	Consolidated (₹ in millions, except per equity share data)				Standalone (₹ in millions, except per equity share data)				
		For the Quar	r the Quarter ended on For the Year ended on			For the Quar	ter ended on	For the Year ended on		
		31st March, 2023 (Audited)	31st March, 2022 (Audited)	31st March, 2023 (Audited)	31st March, 2022 (Audited)	31st March, 2023 (Audited)	31st March, 2022 (Audited	31st March, 2023 (Audited)	31st March 2022 (Audited)	
1	Revenue from Operations	1,407.13	1,221.31	5,130.83	4,659.30	1,407.13	1,221.31	5,130.83	4,659.30	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional items)	150.41	136.56	570.39	455.65	150.45	141.00	570.57	460.37	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	150.41	136.56	570.39	455.65	150.45	141.00	570.57	460.37	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	114.44	147.88	426.26	380.89	114.48	152.33	426.44	385.61	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	113.82	148.68	424.43	379.03	113.83	153.21	424.88	383.81	
6	Equity Share Capital	104.63	108.97	104.63	108.97	104.63	108.97	104.63	108.97	
7	Reserves excluding revaluation reserves	-	-	3,918.08	3,838.81	-	-	3,922.02	3,842.29	
8	Earnings Per Share (Face value of Rs 5/- per share)				8		13			
	1. Basic:	5.37	6.97	19.70	18.58	5.37	7.19	19.71	18.81	
	2. Diluted:	5.37	6.97	19.70	18.58	5.37	7.19	19.71	18.81	

Place: Gurgaon

Date: May 05, 2023

- 1. The Standalone and the consolidated financial results have been reviewed by the audit committee and approved by the board of directors at their meetings held on May 05, 2023. The figures for the quarter ended 31st March 2023 are the balancing figure between the audited figures in respect of the year ended 31st March 2023 and the published unaudited figures for the nine months ended 31st December 2022, which were subject to a limited review by the statutory auditors.
- 2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter and year ended as at Mar 31st, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the quarter and year ended as at March 31st, 2023 are available on the websites of Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the website of Company (www.windlasbiotech.com).

For and on behalf of the board of directors of Windlas Biotech Limited (formerly known as Windlas Biotech Private Limited)

financialexp.epa.in

Hitesh Windlass Managing Director DIN: 02030941

-Sd-

CIN: L72400TG2017PLC117649 Registered office address: Selenium, Tower B, Plot No- 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi, Telangana - 500032, Tel. No.: 040 7961 5565, Website: www.kfintech.com, Email: compliance.corp@kfintech.com EXTRACT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023 (₹ in Millions)

			Quarter ended	Year ended		
SI. No.	Particulars	March 31, 2023	December 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022
		(Audited - Refer Note 5)	(Unaudited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
	Total Income from Operations	1,893.69	1,943.89	1,820.46	7,375.21	6,455.64
?	Net profit before tax (from ordinary activities)	760.60	714.99	722.79	2,582.18	2,040.00
1	Net profit before tax (after extraordinary activities)	760.60	714.99	722.79	2,582.18	2,040.00
1	Net profit after tax attributable to shareholders of the Company	570.15	533.76	508.58	1,957.36	1,485.49
10000	Total Comprehensive Income attributable to shareholders of the Company	556.33	538.58	502.57	1,957.38	1,480.02
	Paid-up equity share capital	1,692.29	1,675.69	1,675.69	1,692.29	1,675.69
9	Reserves (excluding "revaluation reserve")	7,009.93	5,691.47	4,767.74	7,009.93	4,767.74
	Securities premium account	5,264.73	5005.94	5005.94	5,264.73	5005.94
)	Earnings' per equity share ('EPS') [face value of share: ₹ 10 each]*	100000000000000000000000000000000000000	Annual Control of Annual Control	A	***************************************	
	Basic	3.38	3.19	3.23	11.66	9.44
	Diluted	3.32	3.15	3.21	11.52	9.36

KFINTECH

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED

(formerly known as KFin Technologies Private Limited)

- The financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standard 34 ('Ind AS 34') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and are in compliance with the presentation and disclosure requirements of Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended). The above is an extract of the detailed format of financial results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing
- Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and year ended Financial Results (Standalone and Consolidated) are available on the websites of BSE Limited i.e. www.bseindia.com, National Stock Exchange of India Limited i.e. www.nseindia.com and the Company i.e. www.kfintech.com.
- 3 Financial results of the KFin Technologies Limited (standalone financial results)

Quarter ended Year ended SI March 31, December 31. March 31, March 31, March 31, No. **Particulars** 2023 2023 2022 2022 2022 (Audited -(Unaudited) (Audited) (Audited) (Audited) Refer Note 5) Total Income from operations 1,839.15 1,874.11 1,763.99 7,134.90 6,336.26 2 Net profit before tax (from ordinary activities) 767.63 715.61 737.63 2,594.10 2,076.30 3 Net profit before tax (after extraordinary activities) 767.63 715.61 737.63 2,594.10 2,076.30 569.89 Net profit after tax 533.38 529.51 1.962.53 1,530.14

4 The above results have been audited and recommended to the Board of Directors by the Audit Committee and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on May 5, 2023. The statutory auditors have expressed an unmodified opinion on these results.

5 The figures for the quarter ended March 31, 2023 are the balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year and

the published unaudited year to date figures up to the third quarter of the current financial year, which were subject to limited review.

for KFin Technologies Limited

SD/-

DIN: 08659728

Managing Director and Chief Executive Officer

Sreekanth Nadella

Adfactors 55

(₹ in Millions)

बंगलुरु में झारखंड की 11 लड़िकयां तस्करों के चंगुल से छुड़ाई गईं

रांची, 5 मई (भाषा)।

झारखंड से तस्करी कर कर्नाटक ले जाई गई 11 नाबालिग लड़िकयों को बंगलुरु में तस्करों के चंगुल से छुड़ानें में कामयाबी मिली है। एक अधिकारी ने गुरुवार रात को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि ये लड़कियां पहड़िया समुदाय उन्होंने बताया कि ये सभी लड़कियां झारखंड के से ताल्लुक रखती हैं, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समृह (पीवीटीजी) है। अधिकारी ने कहा, पहड़िया समुदाय की 11 लड़िकयों को तस्करों के चंगुल से बचाया गया है। उन्हें बंगलुरु से वापस रांची लाया जाएगा।

साहिबगंज और पाकुड़ जिले की रहने वाली हैं। इस बीच, राज्य सरकार ने एक बयान जारी कर कहा, मानव तस्करों द्वारा बडे शहरों में नौकरी का झांसा देकर गरीब परिवारों के बच्चों को बेचे जाने के कई मामले सामने आए हैं।

kotak

NOTICE

Locker hired by Mr. Jatinder Grewal and Mrs. Tripat Kaur Grewal having address at- P 522 Jalvayu Vihar Sector 21 Noida Uttar Pradesh - 201303 with Noida Sector-51 Branch of Kotak Mahindra Bank Ltd. situated at B1/8, B1/9, Sector 51 Noida Uttar Pradesh - 201301 remains un-operated for the past 3 years.

All the 3 letters sent to Mr. Jatinder Grewal and Mrs. Tripat Kaur Grewal calling upon them to operate the locker has returned unserved and they are not contactable.

It is hereby informed that despite this notice if the said locker is not operated by Mr. Jatinder Grewal and Mrs. Tripat Kaur Grewal within 90 days from the date of this notice, break open of the said locker will be done on August 3, 2023 at around 12 p.m

SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LIMITED SELAN SELAN

CIN: L74899DL1985PLC021445 Regd. Office: J-47/1, Shyam Vihar, Dindarpur, Najafgarh, New Delhi-110 043

E-mail: investors@selanoil.com; Tele Fax No.: 0124- 4200326 Website: www.selanoil.com

Extract of Audited Financial Results for the year ended March 31, 2023

PARTICULARS (₹ in Lakhs)	Quarter Ended Mar 31, 2023 (Audited)	Quarter Ended Dec 31, 2022 (Unaudited)	Quarter Ended Mar 31, 2022 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2023 (Audited)	Year Ended Mar 31, 2022 (Audited)
1. Total Income from Operations (net)	2,661	2,866	2,317	11,794	7,718
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	535	761	302	3,085	993
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	535	761	302	3,085	993
4. Total Comprehensive Income (after tax)	589	760	303	3,116	992
5. Equity Share Capital (face value ₹10/-)	1,520	1,520	1,520	1,520	1,520
6. Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance Sheet of previous year)		X		34,469	31,353
 Earnings Per Share (before & after extraordinary items) of ₹10/- each Basic : Diluted : 	3.51 3.51	5.01 5.01	1.99 1.99	20.29 20.29	6.53 6.53

The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results is available on the stock exchange website : www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website: www.selanoil.com.

for SELAN EXPLORATION TECHNOLOGY LIMITED Suniti Kumar Bhat Place: New Delhi Chairman www.selanoil.com Date: 5 May, 2023 DIN: 08237399

एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पंजीः कार्यालयः ८३, प्रथम मंजिल, पूर्वी मार्ग, वसन्त विहार, नई दिल्ली–110057 CIN: U65993DL2016PTC291377

सार्वजनिक सचना

सर्वसाधारण को सचना दी जाती है कि एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, एक हाउंसिंग फाइनेंस कम्पनी अपना शाखा कार्यालय सग्गू हाईटस, नजदीक तीनकोनी, नामदेव गेट के सामने, बठिंडा—151001 से स्थानांतरित कर रही है।

सभी संबंधितों से अनुरोध है कि उपरोक्त नोटिस पर घ्यान दें।

एविओम इंडिया हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 05 मई, 2023 अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

Fullerton Fullerton India Credit Company Limited कॉपॉरेट कार्यालयः सुप्रीम बिजनेस पार्क, 5 और 6 तल, बी विंग, पवई, मुंबई 400076 **शाखा कार्यालयः** बी–45/47, तीसरी मंजिल, पीवीआर प्लाजा के पास, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली– 110 00 अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति (ओं) की बिक्री के लिए 30 दिनों की ई—नीलामी बिक्री सूचना, एतद्दवारा आम जनत और विशेष रूप से ऋणी एवं गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां प्रतिभृति लेनदार के पास गिरवी / प्रभार की गई हैं, जिसका भौतिक कब्जा फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड / सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है जिसे उधारकर्ताओं और गारंटर (ओं) अर्थात् श्री बालाजी स्टील्स, शिव स्टील्स, राम पाल चौहान, वैशाली चौहान से फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड / सिक्योर लेनदार के बकाया दिनांक 11.7.2022 को रु 85,16,652 / —(रु. पचासी लाख सोलह हजार छः सौ बावन मात्र) की वसूली के लिए और वसूली की तारीख तक उस पर आगे का ब्याज और अन्य व्यय हेत 27.5.2023 को सुबह 11:00 बजे दोपहर 01:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ), "जैसा है जहां है"

आरक्षित मुल्य रुपये 69,15,600 / – (रु. उन्हत्तर लाख पन्द्रह हजार छः सौ मात्र) होगा और बयान जमा (ईएमडी) रुपये ६,91,560 / – (रु. छः लाख इक्यानबे हजार पांच सौ साठ मात्र) होगा। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 26.5.2023 है।

''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है'' पर बेचा जाएगा।

अचल संपत्ति का विवरणः न्यू कृष्ण नगर, इलाका शाहदरा, दिल्ली-110051 की आबादी में ग्राम खुरोजी खास के क्षेत्र में स्थित खसरा नं. 4/27/2 में सम्पूर्ण तीसरा तल का भाग, छत/टैरेस के अधिकार के साथ "उक्त तल", सम्पत्ति सं, 11-बी का भाग, भूमि एरिया माप 160 वर्ग यार्ड्स।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया फुलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपर्न लिमिटेड / सिक्योर्ड क्रेडिटर की वेबसाइट यानी www.fullertonindia.com में दिए गए लिंक को देखें।

स्थान : दिल्ली उज्जवल चौधरी – अधिकृत अधिकारी दिनांकः 06.05.2023 फूलर्टन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

बिक्रा सूचना लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) CIN: U40100TG2005PLC045445 पंजीकृत कार्यालयः प्लॉट नंबर 4, सॉफ्टवेयर युनिट लेआउट, हाईटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद- 500081, तेलंगाना

इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. 2016 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों अंतर्गत एतदद्वारा सचना दी जाती है कि मेसर्स लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड (परिसमापन में) ("कॉर्पोरेट ऋणी") की संपत्तियों को इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(ए) से (डी) के अंतर्गत ई-नीलामी मंच के माध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जे कुछ है" "वहां जो कुछ मौजद है" और "बिना रिकोर्स आधार" पर एकत्रित/विभाजन के आधार पर बिक्री प्रस्तावित की ज रही है। बिक्री के लिए उक्त प्रस्ताव किसी भी प्रकार की वारंटियों और क्षतिपूर्ति के बिना है। नीचे दी गई तालिका में वर्णित संपत्ति का बोलीकरण ऑनलाइन ई-नीलामी सेवा प्रदाता, मेसर्स नेशनल ई-गवर्नेस सर्विसेज लिमिटेड (एनईएसएल) के माध्यम से वेबसाइट https://nbid.nesl.co.in/app/login के माध्यम से होगा। नंभावित बोलीदाता द्वारा आवश्यक प्रपत्र, शपथ पत्र, घोषणा आदि 06.05.2023 से 20.05.2023

के स	ाथ अप्रत्यर्पणीय जमा प्रस्तुत करना <i>*</i>		
बोली	आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की जाने वाली अप्रत्यर्पणीय राशि	1 लाख रु., भले ही लॉट की संख्या	में रुचि के लिए व्यक्त किया
स्थल	के दौरे/निरीक्षण की तिथि	23.05.2023 से 29.05.2023 तक	
ईएमः	डी जमा करने की अंतिम तिथि	01.06.2023 को अपराह्न 05.00 ब	ाजे तक
नीला	मी की तिथि और समय	03.06.2023 संभावित, दोपहर 03:	00 बजे से शाम 05:00 बजे त
क्र. सं	ई-नीलामी में बिक्री के लिए उपलब्ध परिसंपत्तियों के निम्नलिखित समूह⁄लॉट	आरक्षित मूल्य (रु. में)	ईएमडी (रु. में)
1.	लॉट 5 : जीआरपी पाईप 1100 एमएम डायामीटर	37,39,770/- +18% जीएसटी	3,73,977/-
2.	लॉट 6: यूनिट ऑग्जीलियरी ट्रांसफार्मर (16 एमवीए 11/3.45 केवी)	91,19,790/- +18% जीएसटी	9,11,979/-
3.	लॉट ७: ७८५ केवी स्विचयार्ड सामगी	2,63,75,220/- ±18% ਚੀਸ਼ਸਟੀ	26,37,522/-

वे सभी आवेदक जिन्होंने पहले किसी ई-नीलामी में बोली आवेदन पत्र जमा किया है. उन्हें केवल ईमेल और हार्ड कॉपी द्वारा एर उपक्रम पृष्टि भेजने की आवश्यकता है कि 9वीं ई-नीलामी बिक्री की नई समय-सारणी और नियम व शर्ते उन्हें स्वीकार्य हैं। उन्हें 1 लार रुपये की अपत्यर्पणीय राशि के साथ उन लॉट को भी नए सिरे से इंगित करना चाहिए जिसके लिए वे अब आवेदन कर रहे हैं। इच्छुक आवेदक बोली आवेदन पत्र, घोषणा और वचन फॉर्म, अन्य फॉर्म, ऑनलाइन नीलामी बिक्री के सामान्य नियम और शर्तों से युत्त पुर्ण 9वीं ई-नीलामी प्रक्रिया जानकारी दस्तावेज को देख सकते हैं, जो ई-नीलामी मंच https://nbid.nesl.co.in /app/login पर औ कारपोरेट ऋणी की वेबसाइट http://www.lancovidarbha.com पर भी उपलब्ध है। परिसमापक को किसी भी कारण को बताए बिना किसी भी समय ई–नीलामी की किसी भी शर्त को स्वीकार करने या अस्वीकार करने या रद्द करने या बढ़ाने या संशोधित करने क पूर्ण अधिकार है। ई-नीलामी बोली के बारे में किसी भी पूछताछ के लिए, संपर्क करें: श्री नील दोषी +91-9404000667 या श्री प शंकर +91-9980300883, ई-मेलः neeld@nesl.co.in या परिसंपत्ति/बिक्री से संबंधित पूछताछ के लिए कृपया **श्री विजय कुमा** गर्ग. परिसमापक से +91-9611938833 पर संपर्क करें या liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com पर ई-मेल करें

श्री विजय कुमार गर्ग

लैंको विदर्भ थर्मल पावर लिमिटेड के विषय में

Reg. No. IBBI/IPA-002/IP-N00359/2017-18/11060

या मो. +91 8334039272 पर श्री परीक्षित पोद्दार से संपर्क करें।

आवासीय पताः फ्लैट नंबर 1402, टॉवर ए, पत्राचार के लिए परियोजना विशिष्ट पताः जीपीएल ईडन हाइट्स, सेक्टर 70, दरबारीपुर मार्फ्त सुमेधा मैनेजमेंट सॉल्युशंस प्राईवेट लिमिटेड

रोड, गुरुग्राम- 122101, हरियाणा। पंजी. ईमेल आईडी: gargvijay1704@gmail.com

मोबाईल नंबर +91 9611938833

दिनांक: 06.05.2023

बी-1/12, दूसरी मंजिल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली- 110029 संपर्क नंबरः 011-4165 4481/85, ईमेल आईडी (प्रक्रिया विशिष्ट):

liquidation_lvtpl@sumedhamanagement.com स्थानः नई दिर्ल्ल

Health Insurance

NIVA BUPA HEALTH INSURANCE COMPANY LIMITED

(Formerly known as Max Bupa Health Insurance Company Limited) REGISTRATION NO: 145, DATE OF REGISTRATION WITH IRDAI: FEBRUARY 15, 2010

Financial Results

Rs in Lakhs

SN	Particulars		3 months ended/ as at		Year Ended/ as at		
	Tarticulars	March 31, 2023	Dec. 31, 2022	March 31, 2022	March 31, 2023	March 31, 2022	
1	Premium Income (Gross) (Note 1)	1,33,432	99,296	89,237	4,07,303	2,80,997	
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	3,906	(3,220)	(4,785)	1,254	(19,653)	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,906	(3,220)	(4,785)	1,254	(19,653)	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	3,906	(3,220)	(4,785)	1,254	(19,653)	
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] (Note 2)	NA	NA	NA	NA	NA	
6	Paid up Equity Share Capital	1,51,068	1,51,011	1,40,860	1,51,068	1,40,860	
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve)	33,426	33,378	12,540	33,426	12,540	
8	Securities Premium Account	33,385	33,336	12,511	33,385	12,511	
9	Paid up Debt Capital/ Outstanding Debt	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	

Additional Disclosures as required under 52(4) of SEBI (LODR) Regulations 2015

SN	Doutieulous	Year Er	nded/ as at
SIN	Particulars	March 31, 2023	March 31, 2022
1	Debt Equity Ratio (No. of times) (Note 3)	0.30	0.49
2	Debt Service Coverage Ratio (No. of times) (Note 4)	1.47	(29.13)
3	Interest Service Coverage Ratio (No. of times) (Note 5)	1.47	(29.13)
4	Outstanding Redeemable Preference Shares (quantity and value)	NA	NA
5	Capital Redemption Reserve/ Debenture Redemption Reserve (Note 6)	-	-
6	Net Worth (Rs. in Lakhs)	83,112	50,764
7	Net Profit/(Loss) after Tax(Rs. in Lakhs)	1,254	(19,653)
8	Earning Per Share		
	-Basic Earning/ (Loss) per Share	0.09	(1.42)
	-Diluted Earning/ (Loss) per Share	0.08	(1.42)
9	Current Ratio (Note 7)	0.16	0.14
10	Long Term Debt to Working Capital (Note 8)	(0.11)	(0.15)
11	Current Liability Ratio (Note 9)	0.92	0.89
12	Total Debts to Total Assets (Note 10)	0.06	0.09

Notes:

www.readwhere.com

- Premium Income is gross of reinsurance and net of Goods and Service tax.
- The Indian Accounting Standards (Ind AS) are not applicable to Insurance Companies in India.
- Debt Equity Ratio is calculated as Total Borrowings divided by Net worth.
- Debt-Service Coverage Ratio is computed as Profit before Interest and Tax divided by Interest expense together with principal repayments of long term debt made during the period. Interest-Service Coverage Ratio is computed as Profit before Interest and Tax divided by Interest expense of
- long term debt. The provisions of section 71 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules are applicable to the company. However, as per rule 18, Debenture Redemption Reserve shall be created out of profits of the company available for payment of dividend, since the company does not have profits which are available for payment of dividend hence no Debenture Redemption
- Reserve is being created. Current Ratio is current assets (cash and bank balance and advances & other assets) divided by current liabilities and provisions.
- Long term debt to working capital is computed as Long term debt divided by the working capital (working
- capital= current asset- current liabilities and provisions). Current Liability Ratio is computed as 'current liabilities and provision' divided by total liabilities. Total liability
- includes borrowings, current liabilities and provisions. 10 Total Debts to Total Assets is total borrowings divided by total assets as per balance sheet.
- 11 As per Clause 52(4) of Chapter V of SEBI (listing obligations and Disclosure requirements) 2015, as amended, ratios such as Bad Debts to Accounts Receivable ratio, Debtors turnover, Inventory turnover, Operating margin and Net Profit margin are not applicable to the company.
- 12 The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 52 of the SEBI (Listed Obligation and Other Disclosure Reguirements) Regulations, 2015. The full format of Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com) and the Company's website (www.nivabupa.com). For the other line items referred in regulation 52 (4) of the LODR Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange (NSE) and can be accessed on the NSE website (www.nseindia.com).

For and on behalf of Board of Directors Krishnan Ramachandran Managing Director & Chief Executive Officer (DIN:08719264)

Insurance is a subject matter of solicitation. Niva Bupa Health Insurance Company Limited (formerly known as Max Bupa Health Insurance Company Limited) (IRDAI Registration Number 1 45). 'Bupa' and 'HEARTBEAT' logo are registered trademarks of their respective owners and are being used by Niva Bupa Health Insurance Company Limited under license. IRDAI Registration No. 145. Registered Office: C-98, First Floor, Lajpat Nagar, Part 1, New Delhi-110024, Corporate Office: 14th Floor, Capital Cyberscape, Golf Course Extension Road, Sector-59, Gurugram -122011 (Haryana). CIN No. U66000DL2008PLC182918. Customer Helpline No.: 1860-500-8888. Website: www.nivabupa.com